

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-01.06.2022

16 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा(कीमत करीब 1.75 लाख) मय वैगनआर कार सहित 01 मादक पदार्थ तस्कर थाना स्याना पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री श्लोक कुमार के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री सुरेन्द्रनाथ तिवारी के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी श्रीमती वन्दना शर्मा के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना श्री धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 31-05-2022 की रात्रि में थाना स्याना पुलिस टीम द्वारा बुलन्दशहर रोड पशु पेठ के पास स्थित पुलिया से चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त (मादक पदार्थ तस्कर) को 16 किलोग्राम गांजा(कीमत करीब 1.75 लाख रुपये) मय वैगनआर कार नम्बर DL-7CH-1727 सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. शारिक पुत्र सकील अहमद निवासी मौहल्ला चौधरियान कस्बा व थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 16 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 1.75 लाख)
- 2- 01 वैगनआर कार DL-7CH-1727

गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी/मादक पदार्थ तस्कर है जिसके द्वारा वैगनआर कार का प्रयोगकर हैदराबाद से मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर लाया गया था जिसको जनपद बुलन्दशहर के आप-पास क्षेत्रों में तस्करी करने हेतु ले जाया जा रहा था। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थ गांजा की तस्करी कर अधिक कीमत पर बिक्री कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्याना पर मुअसं-168/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार
3. का0 रुप सिंह, का0 राजवीर सिंह, है0का0 चालक ब्रजवीर सिंह